



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

25 कार्तिक 1933 (श०)  
(सं० पटना 636) पटना, बुधवार, 16 नवम्बर 2011

---

समाज कल्याण विभाग  
(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

अधिसूचनाएं  
9 नवम्बर 2011

सं० 1/सा०सु०विविध-22/09-स०क०-2302—1/सा०सु०विविध-22/2009 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का सं. 56) की धारा-7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा अधिनियम की धारा-5 के अधीन प्रावधानों के क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ राज्य के प्रत्येक अनुमंडल में एक भरण-पोषण अधिकरण गठित करती है तथा उसकी अध्यक्षता संबंधित अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा की जाएगी और उक्त अधिनियम की धारा-15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भरण-पोषण अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई के प्रयोजनार्थ प्रत्येक जिले में एक अपील अधिकरण गठित करती है तथा उसकी अध्यक्षता संबंधित जिले के परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा की जाएगी और उक्त अधिनियम की धारा-18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समाज कल्याण विभाग के समस्त सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाते हों, भरण-पोषण अधिकारी के रूप में पदाभिहित करती है।

यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह०) अस्पष्ट,  
सरकार के सचिव।

*The 9<sup>th</sup> November 2011*

No. 1/Sa.su.-vividh-22/09.S.W-2302—1/S.S.Mise-22/2009 In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 (No. 56 of 2007), the State Government, hereby, constitutes a Maintenance Tribunal in each sub-division of the State for the purpose of Carrying out the provisions under section 5 of the Act and it shall be presided over by the sub-divisional Officer of the concerned sub-division and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the said constitutes an Appellate Tribunal in

each District of the State for the purpose of hearing the appeal against the order the Maintenance Tribunal and it shall be presided over by the Principal Judge of family court of the concerned District of the State and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 18 of the said Act designates all the Assistant Directors, Social Security of Social Welfare Department, by whatever name they are called, as Maintenance Officers under the Act.

This notification shall come in to force at once.

By order of the Governor of Bihar,  
Sd./ Illegible,  
*Secretary to the Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 636-571+2000-डी0टी0पी0।  
**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**